



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 08.04.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

फोन पर धमकी देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार



दिनांक 05.04.2021 को डा0 मानवेन्द्र सिंह ने थाना कोतवाली सदर पर सूचना दी कि उनको किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर धमकी दी है और 50 लाख रूपए की मांग की है। सूचना पर थाना कोतवाली सदर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना शुरू की, जिसके क्रम में घटना में एक व्यक्ति की संलिप्तता प्रकाश में आयी। जिसकी पहचान गौरव भारती के रूप में हुई। गौरव से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद किया गया। पूछताछ में गौरव द्वारा अपने जुर्म का इकबाल किया गया। घटना का अनावरण करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5000/- रू0 का पुरस्कार प्रदान किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

गौरव भारती उर्फ लड्डू भइया पुत्र जय आनन्द उर्फ आनन्द कुमार नि० रम्पा टाकीज पहली मण्डी तानसेनगंज थाना कोतवाली सदर जनपद सीतापुर; हालपता डालीबाग-1 थाना हजरतगंज जनपद लखनऊ

बरामदगी का विवरण-

01 अदद रेडमी मोबाइल फोन

पुलिस टीम-

1. उ०नि० मनीष पाठक (प्र०चौ० जेलगेट थाना कोतवाली सदर)
2. हे०का० हेमन्त सिंह
3. हे०का० जुबैर शेख
4. का० मनीष यादव

थाना मितौली पुलिस द्वारा अभियुक्त अनुज मिश्रा पुत्र यशदत्त मिश्रा को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्र के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपद स्तर पर चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना मितौली पुलिस द्वारा अभियुक्त अनुज मिश्रा पुत्र यशदत्त मिश्रा निवासी ओदारा थाना मितौली जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना मितौली पर मु0अ0सं0 126/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा० न्यायालय भेजा गया है।

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अभियुक्त माबूद पुत्र गुलजारी को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्र के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपद स्तर पर चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अभियुक्त माबूद पुत्र गुलजारी निवासी रसूलपुर थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना मोहम्मदी पर मु0अ0सं0 169/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा० न्यायालय भेजा गया है।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना गोला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 170/21 धारा 394 भादवि0 में वांछित अभियुक्त नितेश गुप्ता उर्फ निक्की पुत्र वेदप्रकाश गुप्ता नि0 खुटार रोड मोहल्ला दीक्षिताना थाना गोला खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 326/21 धारा 323/306/506 भादवि0 में वांछित अभियुक्तगण 1. शंकर पुत्र मोहनलाल 2. अरूण पुत्र दयाराम नि0 रननगर थाना कोतवाली सदर खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 126/21 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 में वांछित अभियुक्त नासिर पुत्र आशिक अली नि0 श्रीनगर थाना फूलबेहड़ खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना फरधान पुलिस द्वारा अ0सं0 05/14 धारा 128 सीआरपीसी में वारंटी अभियुक्त इशहाक पुत्र मैकू नि0 रसूलपुर पिवरावां थाना फरधान खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **118 लीटर अवैध कच्ची शराब, 03 अवैध शराब भट्टी** बरामद कर **07 अभियुक्तों** को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना ईसानगर	30 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना भीरा	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना धौरहरा	40 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना फरधान	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना कोतवाली सदर	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना पलिया	08 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	118 लीटर	07 अभियुक्त गिरफ्तार